

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन में नैशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे मनाया जा रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, आपको 22 जून को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक, केन विलैन्स सक्वेयर (Ken Whillans Square) में, नैशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे (National Indigenous Peoples Day) मनाने के लिए आमंत्रित कर रही है। इतिहास, संस्कृति और ब्रैम्पटन के विविध मोजैक का जशन मनाएं, जिसमें इंडीजीन्स लोगों के स्वामित्व वाली विक्रेता मार्किट, सनसेट जशन, बोर्न इन द नॉर्थ लिमिटेड (Born in the North Ltd.) के द्वारा बिग ड्रम (Big Drum) आर्ट इंस्टॉलेशन और लाइव परफॉर्मेंसज होंगी।

21 जून को, कैनेडा, फर्स्ट नेशन्स (First Nations), इनउट (Inuit) और मेटिस (Métis) लोगों के इतिहास, विरासत और विविधता को सम्मानित करने के लिए, नैशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे मनाएगा।

इंडीजीन्स लोगों के स्वामित्व वाली विक्रेता मार्किट

22 जून को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक, इस व्यक्तिगत मार्किट में, लोकल, इंडीजीन्स स्वामित्व वाले शिल्पकारों की हिमायत करें। इस मार्किट में मोतियों वाली और क्रिस्टल ज्वेलरी, पोएट्री, कपड़े, एक्सेसरीज, आर्टवर्क आदि होगा। विक्रेताओं की पूरी सूची, brampton.ca/NIPD पर देखें।

सनसेट जशन

शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक, छिपवा ट्रेवलर्स (Chippewa Travellers) और डियान एंड जॉन हपफील्ड (Deanne & John Hupfield) के द्वारा फायरसाइड चैट, लाइव परफॉर्मेंस में हिस्सा लें और बोर्न इन द नॉर्थ लिमिटेड के द्वारा *बिग ड्रम* नामक एक आर्ट इंस्टॉलेशन का पर्दा उठाते हुए देखें।

बिग ड्रम आर्ट इंस्टॉलेशन

[बोर्न इन द नॉर्थ लिमिटेड \(Born in the North Ltd\)](http://Born in the North Ltd) के द्वारा तैयार की गई, 10-फुट की बिग ड्रम इंस्टॉलेशन, मदर अर्थ और देश की धड़कन को प्रदर्शित करती है, जो जशन में एकत्रित होने का प्रतीक है। टर्टल आईलैंड (Turtle Island) की कई इंडीजीन्स संस्कृतियां, जशन में ड्रम्स के प्रयोग में हिस्सेदारी निभाती हैं। बिग ड्रम आर्ट इंस्टॉलेशन का विजन, इंडीजीन्स प्राइड और जशन के बेहद बड़े प्रतीक के तौर पर डिस्प्ले करने के लिए, यह ड्रम बनाना था। अक्सर ड्रम की साउंड, वह पहली चीज होती है, जिस पर सांस्कृतिक इकट्ठों में ध्यान जाता है और बोर्न इन द नॉर्थ लिमिटेड, इस कलाकृति में उस भावना की ताकत को कैप्चर करना चाहती थी।

बोर्न इन द नॉर्थ लिमिटेड एक रचनात्मक स्टूडियो है, जिसके मालिक जुडवां भाई क्रिस (Chris) और ग्रेग मिशेल (Greg Mitchell) हैं और उनके द्वारा ही इसे चलाया जाता है। उनकी रचना, उनके बेजोड़ दृष्टिकोण से तैयार की गई है और यह मनुष्यों तथा कुदरत के बीच के रिश्ते की जांच-पड़ताल करने पर केंद्रित है। उनकी खुद की कहानी और जीवन के अनुभवों पर विचार करते हुए, प्रेरणा, उनकी मि'कमैक (Mi'kmaq) विरासत, संगीत की पड़ताल और कैनेडियन परवरिश से मिली है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के नेशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे के जशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, brampton.ca/NIPD पर जाएं।

हवाले

“22 जून को, केन विलैन्स सक्वेयर में, हमारे नेशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे के कार्यक्रम में हमसे जुड़ें और फर्स्ट नेशन्स, इनउट और मेटिस कम्युनिटीज के सम्पन्न और विविध संस्कृतियों, आवाजों और अनुभवों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और जशन मनाएं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है और मैं हमारी विविध कम्युनिटी का जशन मनाने के लिए प्रत्येक अवसर का स्वागत करता हूँ। इस नेशनल इंडीजीन्स पीपल्स डे के अवसर पर, मैं हर किसी को सलाह देता हूँ कि फर्स्ट नेशन्स, इनउट और मेटिस कम्युनिटीज और इस धरती के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वाईस 9 और 10; चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के लोग, विरासत और संस्कृति की विविध कम्युनिटी ही इस शहर को इतना खास बनाती है। हमारे 22 जून के कार्यक्रम में, हमारी विविधता और इंडीजीन्स कम्युनिटीज के योगदानों का जशन मनाने में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन से जुड़ें और लोकल इंडीजीन्स लोगों के स्वामित्व वाले कारोबारों की हिमायत करें।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca